



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 42 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2001/माघ 11, 1922

No. 42]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2001/MAGHA 11, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

सं. 8/2001-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 45(अ).—अभिहित प्राधिकारी सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उप शीर्ष सं. 2837.20 के अन्तर्गत आने वाली, यूरोपीय संघ में मूलतः उत्पादित या वहां से आयातित सोडियम फेरोसाइनाइड के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 2 जनवरी, 2001 में प्रकाशित अपनी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:—

- (क) यूरोपीय संघ में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात की गई है
- (ख) भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति कारित हुई है
- (ग) क्षति यूरोपीय संघ से आयातों द्वारा कारित हुई है

अतः अय, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान उस पर प्रतिपादन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का प्रवधारण) नियम, 1955 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर यूरोपीय संघ के मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित या जब भारत में आयात किया गया हो, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ की पहली अनुसूची की उपशीर्ष सं. 2837.20 के अन्तर्गत आने वाले सोडियम फेरोसाइनाइड पर उस दर पर जिसे यू एम डालर 1535 प्रति मिट्रिक टन और ऐसे आयातित सोडियम फेरोसाइनाइड प्रति मिट्रिक टन का पहुंच मूल्य के बीच का अन्तर के रूप में संगणित की जाए, प्रति पाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

2 इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क 30 जुलाई, 2001 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी होगी और भारतीय कर्मा में संश्लेष होगी।

गमन्त्रीकरण : इस अधिसूचना के पगोजनों के लिए,—

- (क) "पहुँच मूल्य" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा अवधारित निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है और जिसमें उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अधीन उद्घाटित शुल्कों के सिवाय सभी सीमाशुल्क सम्मिलित हैं।
- (ख) प्रति पाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू "विनियम दर" वह दर होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाती है और "विनियम दर" के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख वह तारीख होगी जिसको उस सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन "प्रवेश पत्र" प्रस्तुत किया जाता है।

[फा. सं. 354/4/2001-टीआरयू]

जी.डी. लोहानी, अवर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

No. 8/2001-CUSTOMS

**G. S. R. 45(E).—**WHEREAS in the matter of import of Sodium Ferrocyanide, falling under sub-heading No. 2837.20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the European Union, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 2<sup>nd</sup> January, 2001, has come to the conclusion that -

- (a) Sodium Ferrocyanide originating in, or exported from, the European Union, have been exported to India below its normal value;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused by imports from the European Union;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rule 13 and rule 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on Sodium Ferrocyanide, falling under sub-heading No.2837.20 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the European Union, and when imported into India, an anti-dumping duty at the rate which is to be calculated as the difference between US \$ 1535 pre metric tonne and the landed value of such imported Sodium Ferrocyanide per metric tonne.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the day of 30<sup>th</sup> July, 2001, and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.** - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

[F No 354/4/2001-TRU]

G D LOHANI, Under Secy

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

सं. 9/2001-सीमाशुल्क

**सा. का. नि. 46(अ).**—अभिहित प्राधिकारी योरोपीय संघ में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले थियोफाइलीन और कैफेन के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 2 जनवरी, 2001 में प्रकाशित अपनी प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:—

- (क) यूरोपीय संघ में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित थियोफाइलीन और कैफेन का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है
- (ख) भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति कारित हुई है
- (ग) यूरोपीय संघ से आयातों द्वारा क्षति कारित हुई है

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान उस पर प्रतिपादन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर यूरोपीय संघ में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष सं. 2939.30 और 2939.50 के अन्तर्गत आने वाले थियोफाइलीन और कैफेन पर स्तंभ (1) में उस दर से प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित करती है जिसकी संमर्पण, उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित रकम और ऐसे आयातित थियोफाइलीन और कैफेन प्रति मीटरी टन के अवतरण मूल्य के बीच अंतर के रूप में की जाएगी।

### सारणी

राजक्षेत्र	उत्पाद	राशि अमेरिकी डालर में प्रति मीटरी टन
(1)	(2)	(3)
योरोपीय संघ (सभी सदस्य देश)	थियोफाइलीन	10686
	कैफेन	11486

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपादन शुल्क 30 जुलाई, 2001 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी रहेगी और भारतीय करेंसी में संदेय होगी।

**स्पष्टीकरण :**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “अवतरण मूल्य” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथा अवधारित निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है और जिसमें उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 3क, धारा 8ख, धारा 9 और धारा 9क के अधीन उद्ग्रहीत शुल्कों को छोड़ कर सभी सीमाशुल्क सम्मिलित हैं।
- (ख) ऐसे प्रतिपादन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू “विनियम दर” वह दर होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और “विनियम दर” के अवधारण के लिए, सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “प्रवेश पत्र” के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/5/2001—टी.आर.यू.]

जी.डी. लोहानी, अवर सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

No. 9/2001-CUSTOMS

**G. S. R. 46(E).**— WHEREAS in the matter of import of Theophylline and Caffeine, falling under Chapter 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from the European Union, the designated authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 2<sup>nd</sup> January, 2001, has come to the conclusion that -

- (a) Theophylline and Caffeine, originating in, or exported from, the European Union, have been exported to India below their normal value;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused by imports from the European Union;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rule 13 and rule 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on Theophylline and Caffeine, falling under sub-heading Nos. 2939.30 and 2939.50 respectively, of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the European Union, and when imported into India, an anti-dumping duty at the rate which is to be calculated as the difference between the amount mentioned in column (3) of the Table below and the landed value of such imported Theophylline and Caffeine per metric tonne.

Table

Territory	Product	Amount in US dollar per metric tonne
(1)	(2)	(3)
European Union (all member-countries)	Theophylline	10686
	Caffeine	11486

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the day of 30<sup>th</sup> July, 2001, and shall be payable in Indian currency.

*Explanation* - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act.

(b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

[F No 354/5/2001-TRU]

G D LOHANI, Under Secy

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

सं. 10/2001-सीमाशुल्क

**सा. का. नि. 47(अ).**—अभिहित प्राधिकारी, संयुक्त राज्य अमरीका, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ और कोरिया आरपी में उत्पादित या वहाँ से निर्यात किए गए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 28 के अन्तर्गत आने वाले सोडियम साइनाइड के आयात के मामले में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 18 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में उक्त निर्णय पर पहुँचे थे कि—

- (क) संयुक्त राज्य अमरीका, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ और कोरिया आरपी में उत्पादित या वहाँ से निर्यात किए गए सोडियम साइनाइड का भारत में निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप उसका पाटन हुआ है;
- (ख) भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति हुई है;
- (ग) यह क्षति विषयगत देशों क्षेत्र से आयातों द्वारा संचयी रूप से कारित हुई है;

और केन्द्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1), तारीख 27 दिसम्बर, 1999 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 134/99 सीमाशुल्क, तारीख 27 दिसम्बर, 1999 द्वारा प्रतिपादित शुल्क अधिरोपित किया था;

और अभिहित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 7 मार्च, 2000 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों द्वारा इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि—

- (क) संयुक्त राज्य अमरीका, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ एवं कोरिया आरपी में उत्पादित या वहाँ से निर्यात किए गए सोडियम साइनाइड का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;
- (ख) भारतीय उद्योग को तात्त्विक क्षति हुई है;
- (ग) घरेलू उद्योग को यह क्षति विषयगत देशों में उत्पादित या वहाँ से निर्यात किए गए सोडियम साइनाइड के पाटन से कारित हुई है;

और केन्द्रीय सरकार ने अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 6 जून, 2000 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 83/2000 सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 2000 [सा. का. नि. 522 (अ) तारीख 6 जून, 2000] द्वारा प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया है;

और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण ने मैसर्स साइनाइड एण्ड केमिकल कंपनी बनाम अभिहित प्राधिकारी के मामले में अपील सं. सी/213/2000-एडी में, अपने अंतिम आदेश सं.-35/2000-एडी तारीख 22 अगस्त, 2000 में उक्त अधिसूचना सं. 83/2000-सीमाशुल्क दिनांक 6 जून, 2000 को उपांतरित करते हुए प्रतिपाटित शुल्क अमरीकी डालर में शुल्क प्रतिपाटित शुल्क विहित किया है;

और अभिहित प्राधिकारी ने सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के उपरोक्त आदेश, तारीख 22 अगस्त, 2000 को स्वीकार कर लिया है अतः अब केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1999 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 83/2000 को सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 2000 [सा.का.नि. 522(अ) तारीख 6 जून, 2000] को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिनके ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में के अधीन उपशीर्ष सं. 2837.11 के अन्तर्गत इसमें संलग्न सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात और भारत में आयात किया जाए, उस पर से प्रति पाटित शुल्क, जिसकी संगणना उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित रकम और प्रति मीट्रिक टन मोडियम साइनाइड के ऐसे आयातों के अवतरित मूल्य के बीच के अन्तर के रूप में की जाए, अधिरोपित करती है।

क्रम सं.	देश/क्षेत्र का नाम	उत्पादक और निर्यातक का नाम	रकम (अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	संयुक्त राज्य अमरीका	सभी निर्यातक	1608.16
2.	यूरोपीय संघ	(i) मैसर्स देगुसा हल्स (ii) अन्य सभी निर्यातक	1608.16 1608.16
3.	चेक गणराज्य	सभी निर्यातक	1608.16
4.	कोरिया आरपी	सभी निर्यातक	1608.16

2. इस अधिसूचना का कोई भी मैसर्स टोंग सूह पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोरिया आरपी द्वारा विनिर्मित और मैसर्स हनवा कारपोरेशन, कोरिया आरपी द्वारा निर्यातित सोडियम साइनाइड पर लागू नहीं होगा। यदि यथास्थिति अधिकारिक सीमाशुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त इम बात से संतुष्ट हो कि उक्त मैसर्स टोंग सूह पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त सोडियम साइनाइड का विनिर्माण किया है।

3 प्रतिपाटित शुल्क का संदाय भारतीय करेंसी में होगा या किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण :—** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए .—

- (क) “अवतरित मूल्य” से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अधीन यथास्थिति निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3ग, 8ख, 9 और 9क के अधीन उद्गृहीत शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्कें आती हैं;
- (ख) “विनिर्माण की दर” वह हो जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 51) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय - समय पर जारी की गई भारत के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हों और “विनिर्माण की दर” के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन “प्रवेश पत्र” के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/166/99-टीआरयू (पोटी-III)]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2001

**No. 10/2001-CUSTOMS**

**G. S. R. 47(E).—** WHEREAS in the matter of import of Sodium Cyanide, falling under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the United States of America, Czech Republic, the European Union and Korea RP, the designated authority, *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18<sup>th</sup> October, 1999 had come to the conclusion that -

- (a) Sodium Cyanide originating in, or exported from, the United States of America, Czech Republic, the European Union and Korea RP has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused cumulatively by imports from the subject countries/territory;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 134/99-Customs, dated the 27<sup>th</sup> December, 1999, [G.S.R. 824(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 1999] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 27<sup>th</sup> December, 1999;

AND WHEREAS the designated authority *vide* its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 7<sup>th</sup> March, 2000 has come to the conclusion that -

- (a) Sodium Cyanide, originating in, or exported from, the United States of America, Czech Republic, the European Union and Korea RP has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused to the domestic industry by the dumping of Sodium Cyanide originating in, or exported from, the subject countries/territory;

AND WHEREAS on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government has imposed anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.83/2000-Customs dated the 6<sup>th</sup> June, 2000, [G.S.R.522 (E), dated the 6<sup>th</sup> June, 2000] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6<sup>th</sup> June, 2000;

AND WHEREAS the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, in its final order No.35/2000-AD, dated the 22<sup>nd</sup> August, 2000 in Appeal No.C/213/2000-AD in the matter of M/s Cyanides & Chemicals Company vs The designated authority, has modified the said notification No.83/2000-Customs, dated the 6<sup>th</sup> June, 2000 to prescribe the anti-dumping duty in US dollar terms;

AND WHEREAS the designated authority has accepted the above order of Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal, dated the 22<sup>nd</sup> August, 2000;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (8) of section 9A, read with rules 18 and 20 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.83/2000-Customs dated the 6<sup>th</sup> June, 2000, [G.S.R.522 (E), dated the 6<sup>th</sup> June, 2000], except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby imposes on Sodium Cyanide, falling under sub-heading No. 2837.11 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the countries or territory mentioned in column (2) of the Table annexed hereto, and when exported by exporters mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate which is to be calculated as the difference between the amount mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table and the landed value of such imported Sodium Cyanide per metric tonne.

Table

S.No.	Name of the Country/Territory	Name of the Exporter/Producer	Amount (in US dollar per metric tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	United States of America	All exporters	1608.16
2.	European Union	(i) M/s Degussa Huls (ii) All other exporters	1608.16 1608.16
3.	Czech Republic	All exporters	1608.16
4.	Korea RP	All exporters	1608.16

2. Nothing contained in this notification shall apply to Sodium Cyanide manufactured by M/s Tong Suh Petrochemicals Corp. Ltd., Korea RP and exported by M/s Hanwha Corporation, Korea RP, if the jurisdictional Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, is satisfied that such Sodium Cyanide has been manufactured by the said M/s Tong Suh Petrochemicals Corp. Ltd.

3. The anti-dumping duty shall be paid in Indian currency.

*Explanation* - For the purposes of this notification, -

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of Customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.



## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

सं. 11/2001-सीमाशुल्क

सा० का० नि० 48 (अ).— अभिहित प्राधिकारी, ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खण्ड 1 तारीख 16 मार्च, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना के तहत चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैन्जाल्डीहाइड पर अधिसूचना सं. 46/99-सीमाशुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1999 [सा.का.नि. 293(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1999] द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के जारी रहने के विषय में पुनर्विलोकन प्रारम्भ किया था और पुनर्विलोकन अन्वेषणों के परिणाम के लम्बित रहने तक प्रतिपाटन शुल्क के उपयुक्त विस्तारण के लिए अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैन्जाल्डीहाइड पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को अधिसूचना सं. 30/2000-सीमाशुल्क, तारीख 16 मार्च, 2000 [सा.का.नि. 250(अ), तारीख 16 मार्च, 2000] और अधिसूचना सं. 121/2000-सीमाशुल्क, तारीख 19 सितम्बर, 2000 [सा.का.नि. 432(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2000] द्वारा 19 मार्च, 2000 तक जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित कर दिया है जब तक कि अधिसूचना को उससे पूर्व प्रतिमहत्त न कर लिया जाता है;

और अभिहित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, तारीख 20 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं—

(क) चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैन्जाल्डीहाइड का भारत में सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि प्रवृत्त प्रतिपाटन शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंचेगी,

(ग) यदि प्रवृत्त प्रतिपाटन शुल्क हटाया जाता है तो चीन जनवादी गणराज्य से होने वाले आयाता से घरेलू उद्योग को क्षति होगी;

(घ) चीन जनवादी गणराज्य से 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैन्जाल्डीहाइड के आयातों पर मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति होती रहेगी अथवा क्षति को पुनरावृत्ति होने की संभावना है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाठित वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में निर्यातित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अन्तर्गत आने वाले 3,4,5-ट्राइमेथोक्सी बैन्जाल्डीहाइड पर 4.31 अमरीकन डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

**स्पष्टीकरण**— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए लागू “विनिमय” दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अभिसूचना में “विनिर्दिष्ट की जाती है और “विनिमय दर” के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 के अधीन “प्रतिपाटन” के अस्तित्व करने की तारीख होगी।

[फा सं 354/217/2000-टीआरयू]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

No. 11/2001-CUSTOMS

G.S.R. 48 (E).— WHEREAS the designated authority *vide* notification published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16<sup>th</sup> day of March, 2000, had initiated review in the matter of continuation of anti-dumping duty on 3,4,5 Trimethoxy Benzaldehyde originating in, or exported from, the People's Republic of China, imposed *vide* notification No.46/99-Customs, dated the 29<sup>th</sup> April, 1999 [G.S.R.293(E), dated the 29<sup>th</sup> April, 1999] and had requested for suitable extension of anti-dumping duty, pending the results of the review investigations;

AND WHEREAS the Central Government has extended the anti-dumping duty imposed on 3,4,5 Trimethoxy Benzaldehyde originating in, or exported from, the People's Republic of China *vide* notification No.30/2000-Customs, dated the 16<sup>th</sup> March, 2000 [G.S.R.250(E), dated the 16<sup>th</sup> March, 2000] and notification No.121/2000-Customs, dated the 19<sup>th</sup> September, 2000 [G.S.R. 732(E), dated the 19<sup>th</sup> September, 2000], upto and inclusive of 19<sup>th</sup> March, 2001, unless the notification is revoked earlier.

AND WHEREAS the designated authority *vide* notification published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 20<sup>th</sup> day of December, 2000 has concluded that –

- (a) 3,4,5 Trimethoxy Benzaldehyde originating in, or exported from, the People's Republic of China, has been exported below its normal value;
- (b) The domestic industry would suffer material injury in case the anti-dumping duty in force is removed;
- (c) The injury to the domestic industry would be caused by imports from the People's Republic of China, in case the anti-dumping duty in force is removed;
- (d) Cessation of existing anti-dumping duty on imports of 3,4,5 Trimethoxy Benzaldehyde from the People's Republic of China is likely to lead to continuation or recurrence of injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government after considering the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on 3,4,5 Trimethoxy Benzaldehyde, falling under Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the People's Republic of China, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate of US \$ 4.31 per kilogramme.

*Explanation.* - For the purposes of this notification, "rate of exchange" applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the relevant date for the determination of the "rate of exchange" shall be the date of presentation of the "bill of entry" under section 46 of the said Customs Act.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2001

## सं. 12/2001-सीमाशुल्क

**सा० का० नि० 49.**— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपादन शुल्क निर्धारण और संग्रहण तथा शर्त का अधधारण ) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 46/99-सीमाशुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1999 [ सा.का.नि. 293(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1999 ] को उन बातों के सिवाय खण्डित करती है जो ऐसे खण्डन से पूर्व की गई थी या जिनका किए जाने का लोप किया गया था।

[ फा. सं. 354/217/2000-टीआरयू ]

जी. डी. लोहानी, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2001

## No. 12/2001-CUSTOMS

**G.S.R. 49 (E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.46/99-Customs, dated the 29<sup>th</sup> day of April, 1999 [G.S.R.293(E), dated the 29<sup>th</sup> day of April], except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F No. 354/217/2000-TRU]

G D LOHANI, Under Secy

